



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 32) पटना, बुधवार, 10 जनवरी 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
15 दिसम्बर 2023

सं०नि०को०-09/2023-3054/वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1 स्था०-106/2020-2553, दिनांक 06.10.2023 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद के लिए बहाली की रीति एवं नियुक्ति हेतु अर्हता निर्धारित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:-

बिहार विधान सभा सचिवालय(सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों पर बहाली की रीति एवं नियुक्ति हेतु अर्हता तथा पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
प्रवीन कुमार श्रीवास्तव,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 32-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>